



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

8 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 167 राँची, मंगलवार,

27 फरवरी, 2018 (ई०)

---

### राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

-----  
आदेश

12 फरवरी 2018

संख्या-03 नि०-14/2014 रा०नि०आ० 163 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से नगरपालिका निर्वाचन, 2013 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577, 578 एवं 590 सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने/विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित नहीं है ;

अतः अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, 77 एवं 78 सहपठित झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577, 578 एवं 590 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को स्थानीय नगर निकाय/पंचायत निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	हजारीबाग	V हजारीबाग / 03 हजारीबाग नगर परिषद् (वर्ग-ख)	रेखा देवी, पति-चन्द्रशेखर आजाद, ओकनी, हजारीबाग	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		V हजारीबाग / 03 हजारीबाग नगर परिषद् (वर्ग-ख)-05	बिक्कु कुमार, पिता-बालेश्वर राम, ओकनी-1, हजारीबाग	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		V हजारीबाग / 03 हजारीबाग नगर परिषद् (वर्ग-ख)-11	इन्द्रचंद जायसवाल, पिता-स्व० भुवनेश्वर जायसवाल, कुम्हार टोली, वार्ड नं०-11, हजारीबाग	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		V हजारीबाग / 03 हजारीबाग नगर परिषद् (वर्ग-ख)-19	सीताराम गोप, पिता-श्री लाटो गोप, खिरगांव (चमार टोला), हजारीबाग	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		V हजारीबाग / 03 हजारीबाग नगर परिषद् (वर्ग-ख)-21	बबीता देवी, पति-स्व० राजेश गोप, बड़ा बाजार, विष्णु मंदिर गली, हजारीबाग	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

**ह०/-(अस्पष्ट),**

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

झारखण्ड, राँची।

-----